

AU-1543

M.Com. (Semester—I) (New) Examination

BANKING & INSURANCE SERVICES

Paper—104

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 80

Note :— ALL questions are compulsory.

SECTION—A (MCQ)

Write the answers of the following questions by choosing the correct options given below :—
1×20=20

1. Which one is not the function of Commercial Bank ?
(a) Receiving deposits (b) Providing loans
(c) Discounting of bills (d) Issue of currency
2. e-banking refers to _____.
(a) electronic banking (b) easy banking
(c) Internet banking (d) All of these
3. Non performing assets may be called _____.
(a) Bad debt (b) Doubtful debt
(c) Non Productive Loan (d) None of these
4. Full form of ATM
(a) Automatic Teller Machine (b) Automated Teller Machine
(c) All Time Money (d) None of these
5. RBI was nationalised in _____.
(a) 1947 (b) 1948
(c) 1949 (d) 1950
6. Three tier credit system is related with _____.
(a) Private credit (b) Public credit
(c) Corporate credit (d) Co-operative credit

7. Regional Rural Bank was established in _____.
 (a) 1975 (b) 1935
 (c) 1969 (d) 1980
8. SBI is a _____.
 (a) Co-operative sector bank (b) Corporate sector bank
 (c) Private sector bank (d) Public sector bank
9. Insurer is a contract between _____.
 (a) Insurance and Insured (b) Insurer and business
 (c) Insured and Public (d) None of these
10. Who regulates insurance business in India ?
 (a) SEBI (b) RBI
 (c) IRDA (d) General Insurance
11. Insurance is _____.
 (a) Saving + Investment (b) Saving only
 (c) Saving + Investment + Risk (d) (c) + Social Security
12. The highest claim settlement ratio of Insurance Company in India is of _____.
 (a) SBI Life Insurance (b) ICICI Prudential Insurance
 (c) LIC (d) Bajaj Allianz Insurance
13. The principle of indemnity does not apply to _____.
 (a) Life Insurance (b) Personal Accident Insurance
 (c) Fire Insurance (d) None of these
14. Marine insurance is related to the compensation of _____.
 (a) Cargo losses (b) Damage losses
 (c) Lost losses (d) All of these
15. There is no limit for sum assured to _____.
 (a) Life Insurance (b) Property Insurance
 (c) Crop Insurance (d) Cattle Insurance
16. Which one is not the function of LIC ?
 (a) Personal Accident Policy (b) Mediclaim Policy
 (c) Money Back Policy (d) Crop Insurance Policy

17. IBRD is also known as _____.
 (a) Asian Bank (b) World Bank
 (c) (a) and (b) (d) None of these
18. The contribution to economic development of India by LIC.
 (a) By null position (b) By silent position
 (c) By providing funds to Govt. of India (d) By providing funds to SBI
19. The main object of establishment of IFCI was _____.
 (a) To provide funds to industries (b) To provide funds to small scale industry
 (c) To provide funds to cottage industry (d) None of these
20. IDBI was established in the year _____.
 (a) 1964 (b) 1948
 (c) 1980 (d) 1974

SECTION—B

1. (a) What is meant by computerisation of banks ? Explain its advantages and disadvantages. 12

OR

- (b) Discuss the current trends in Banking sector in India. 12
2. (a) State the functions of Co-operative Banks. Explain their role in the rural development of India. 12

OR

- (b) Discuss the various functions of Reserve Bank of India. 12
3. (a) What is meant by Insurance ? Explain the general principles of insurance. 12

OR

- (b) "Insurance is a social and business security tool." Discuss. 12
4. (a) What is marine insurance ? Explain the principles and importance of marine insurance. 12

OR

- (b) Explain the need of crop insurance. Do you feel that present forms of crop insurance are adequate in India ? Support your answer. 12
5. (a) Explain the contribution of Life Insurance in the economic development in India. 12

OR

- (b) Explain the objectives and functions of I.D.B.I. 12

AU-1543

M.Com. (Semester—I) (New) Examination
BANKING & INSURANCE SERVICES
Paper—104

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 80

(मराठी माध्यम)

सूचना :— सर्व प्रश्न अनिवार्य आहेत.

विभाग—अ (वस्तुनिष्ठ प्रश्न)

बहुपर्यायी प्रश्नांचे योग्य पर्याय निवडा :—

1×20=20

1. व्यापारी बँका खालीलपैकी कोणते कार्य करीत नाही ?
 (अ) ठेव स्विकारणे (ब) कर्ज पुरविणे
 (क) बिल सवलत (ड) नोटस आणि नाने वाटप
2. ई-बँकींगचा संबंध _____
 (अ) इलेक्ट्रॉनिक बँकींग (ब) ईशी बँकींग
 (क) इंटरनेट बँकींग (ड) वरील सर्व
3. अनुत्पादक संपत्ती म्हणजे काय ?
 (अ) बुडीत कर्ज (ब) संशयीत कर्ज
 (क) अनुत्पादक कर्ज (ड) वरीलपैकी नाही
4. A.T.M. चे पूर्ण रूप :
 (अ) स्वयंचालित गणक यंत्र (ब) ऑटोमॅटेड (Automated) गणक यंत्र
 (क) सर्व वेळ पैसा (All time money) (ड) वरील पैकी नाही
5. भारतीय रीझर्व बँकेचे राष्ट्रीयकरण झाले :
 (अ) 1947 (ब) 1948
 (क) 1949 (ड) 1950
6. स्त्रीस्तरीय प्रत्यय व्यवस्था _____ संबंधीत आहे.
 (अ) खाजगी प्रत्यय (ब) सार्वजनिक प्रत्यय
 (क) प्रमंडळ प्रत्यय (ड) सहकारी प्रत्यय

7. प्रादेशीक ग्रामीण बँकेची स्थापना वर्ष :
 (अ) 1975 (ब) 1935
 (क) 1969 (ड) 1980
8. भारतीय स्टेट बँक (SBI) आहे :
 (अ) सहकार क्षेत्रातील बँक (ब) प्रमंडळ क्षेत्रातील बँक
 (क) खाजगी क्षेत्रातील बँक (ड) सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक
9. विमा यामधिल करार आहे :
 (अ) विमा कंपनी आणि विमेदार (ब) विमा कंपनी आणि व्यवसाय
 (क) विमाधारक आणि जनता (ड) यापैकी नाही
10. भारतामध्ये विमा व्यवसायाचे नियमन कोण करतो ?
 (अ) सेबि (SEBI) (ब) RBI
 (क) IRDA (ड) सामान्य बीमा (General Insurance)
11. विमा हे आहे :
 (अ) बचत + गुंतवणुक (ब) बचत
 (क) बचत + गुंतवणुक + जोखीम (ड) (क) + सामाजीक सुरक्षितता
12. भारतात सर्वाधिक दावे निकाळात काठण्याचे सर्वाधिक प्रमाण _____ चे आहे.
 (अ) SBI Life Insurance (ब) ICICI Prudential Insurance
 (क) LIC (ड) Bajaj Allianz Insurance
13. नुकसान भरपाईचे तत्व _____ ला लागू होत नाही.
 (अ) जिवन विमा (ब) व्यक्तीगत अपघात विमा
 (क) अग्नि विमा (ड) यापैकी नाही
14. सामुद्रिक विमा, नुकसान _____ भरपाईशी संबंधीत आहे.
 (अ) वाहतुकी दरम्यानचे नुकसान (ब) क्षतीनुकसान भरपाई
 (क) वस्तु हरविण्यामुळे झालेले नुकसान (ड) वरील सर्व
15. _____ या विमा प्रकारात विमा राशीची अधिकतम मर्यादा लागू होत नाही.
 (अ) जिवन विमा (ब) संपत्ती विमा
 (क) पिंग विमा (ड) पशुधन विमा
16. खालीलपैकी हे जिवन विम्याचे कार्य नाही :
 (अ) व्यक्तीगत अपघात विमा (ब) आरोग्य विमा
 (क) मनिबँक पॉलीसी (ड) पिक विमा

17. IBRD या नावाने ओळखली जाते :
 (अ) एशियन बँक (ब) जागतिक बँक
 (क) (अ) आणि (ब) (ड) यापैकी कोणतेही नाही
18. भारताच्या आर्थिक विकासात जीवन विम्याचे योगदान :
 (अ) तटस्थ भूमिकेतून (ब) स्थिर भूमिकेतून
 (क) भारत सरकारला निधि पुरवठा (ड) SBI निधिचा पुरवठा करून
19. भारतीय औद्योगिक वित्त निगमचे मुख्य उद्देश :
 (अ) उद्योगांना निधिचा पुरवठा करणे (ब) लघु उद्योगांना निधिचा पुरवठा करणे
 (क) गृह उद्योगांना निधिचा पुरवठा करणे (ड) वरीलपैकी नाही
20. भारतीय औद्योगिक विकास बँकेची स्थापना झाली :
 (अ) 1964 (ब) 1948
 (क) 1980 (ड) 1974

विभाग—ब

1. (अ) अधिकोषाच्या संगणीकरणापासून आपणास काय अर्थबोध होतो ? संगणीकरणाचे फायदे व तोटे विशद करा. 12
 किंवा
 (ब) भारतातील अधिकोषण क्षेत्रातील वर्तमान प्रवृत्तींची चर्चा करा. 12
2. (अ) सहकारी बँकांची कार्ये विशद करा. भारताच्या ग्रामीण विकासात त्यांची भूमिका स्पष्ट करा. 12
 किंवा
 (ब) भारतीय रिझर्व्ह बँकेची विविध कार्यांची चर्चा करा. 12
3. (अ) विमा या पासून आपणास काय अर्थबोध होतो ? विम्याची सामान्य तत्वे स्पष्ट करा. 12
 किंवा
 (ब) "विमा सामाजिक आणि व्यावसायिक सुरक्षेचे साधन आहे." चर्चा करा. 12
4. (अ) सामुद्रिक विम्याचे तत्वे व महत्व विशद करा. 12
 किंवा
 (ब) पिक विम्याची आवश्यकता स्पष्ट करा. भारतातील पिक विम्याचे वर्तमान प्रारूप (Forms) पर्याप्त आहेत असे आपणास वाटते काय ? आपल्या उत्तराचे समर्थन करा. 12
5. (अ) भारताच्या आर्थिक विकासात जीवन विम्याचे योगदान स्पष्ट करा. 12
 किंवा
 (ब) भारतीय औद्योगिक विकास बँक (I.D.B.I.) चे उद्देश आणि कार्ये स्पष्ट करा 12

AU-1543

M.Com. (Semester—I) (New) Examination

BANKING & INSURANCE SERVICES

Paper—104

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 80

(हिन्दी माध्यम)

सूचना :— सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

विभाग—अ (वस्तुनिष्ठ प्रश्न)

बहुपर्यायी प्रश्नों का सही पर्याय लिखिए :—

1×20=20

1. व्यापारी बैंक निम्न कार्य में से कौनसा कार्य नहीं करता ?
 (अ) ठेवी स्वीकरना (ब) कर्ज देना
 (क) विपत्र (ड) मुद्रा जारी करना
2. ई-बैंकिंग _____ कहते हैं।
 (अ) इलेक्ट्रानिक बैंकिंग (ब) ईजी बैंकिंग
 (क) इंटरनेट बैंकिंग (ड) उपरोक्त सभी
3. अनुत्पादक सम्पत्ति गाने _____।
 (अ) डूबत ऋण (ब) संशयीत ऋण
 (क) अनुत्पादक ऋण (ड) इनमें से कोई नहीं
4. ATM का पूर्णरूप _____।
 (अ) ऑटोमैटिक टेलर मशीन (ब) ऑटोमेटेड टेलर मशीन
 (क) ऑल टाईम मनी (ड) इनमें से कोई नहीं
5. भारतीय रिज़र्व बैंक का राष्ट्रीयकरण _____ में हुआ था।
 (अ) 1947 (ब) 1948
 (क) 1949 (ड) 1950
6. त्रिस्तरीय पत व्यवस्था _____ संबंधीत है।
 (अ) निजी पत (ब) सार्वजनिक पत
 (क) प्रमंडल पत (ड) सहकारी पत

7. प्रादेशिक ग्रामीण बैंक स्थापना वर्ष _____ ।
 (अ) 1975 (ब) 1935
 (क) 1969 (ड) 1980
8. SBI _____ है ।
 (अ) सहकार क्षेत्र बैंक (ब) प्रमंडल क्षेत्रीय बैंक
 (क) निजी क्षेत्र बैंक (ड) सार्वजनिक क्षेत्र बैंक
9. बीमा यह करार बीमा एवं _____ साथ होता है ।
 (अ) बीमाधारक (ब) व्यापार
 (क) जनता (ड) इनमें से कोई नहीं
10. भारत में बीमा व्यवसाय का नियमन कौन करता है ?
 (अ) SEBI (ब) RBI
 (क) IRDA (ड) सामान्य बीमा
11. बीमा यह _____ ।
 (अ) बचत + पूंजी निवेश (ब) केवल बचत
 (क) बचत + पूंजी निवेश + जोखिम (ड) (क) + सामाजिक सुरक्षा
12. भारत में सर्वाधिक दावे निपटारा करने के सर्वाधिक प्रमाण _____ के हैं ।
 (अ) SBI लाइफ इंशोरेन्स (ब) ICICI प्रुडनसीअल इंशोरेन्स
 (क) LIC (ड) बजाज अलाईन्स इंशोरेन्स
13. नुकसान भरपाई तत्व _____ लागू नहीं होता ।
 (अ) जीवन बीमा (ब) व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा
 (क) अग्नि बीमा (ड) उपरोक्त में नहीं
14. सामुद्रिक बीमा _____ नुकसान भरपाई से संबंधित है ।
 (अ) यातायात दरम्यान नुकसान (ब) क्षति नुकसान भरपाई
 (क) वस्तु गुम होने पर नुकसान (ड) उपरोक्त सभी
15. _____ यह बीमा प्रकार में बीमा राशि की अधिकतम मर्यादा लागू नहीं होती ।
 (अ) जीवन बीमा (ब) संपत्ति बीमा
 (क) फसल बीमा (ड) पशुधन बीमा
16. निम्नलिखित _____ यह जीवन बीमा का कार्य नहीं है ।
 (अ) व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (ब) स्वास्थ्य बीमा
 (क) मनी बैक पॉलिसी (ड) फसल बीमा

17. IBRD इस नाम से पहचानी जाती है :

- (अ) एशियन बैंक (ब) जागतिक बैंक
(क) (अ) एवं (ब) (ड) इनमें से कोई नहीं

18. भारत के विकास में जीवन बीमा का योगदान _____।

- (अ) तटस्थ भूमिका में (ब) स्थिर भूमिका में
(क) भारत सरकार को निधि पूर्ति (ड) SBI निधि को पूर्ति करना

19. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का स्थापना का मुख्य उद्देश्य था।

- (अ) उद्योग को निधि की पूर्ति करना (ब) लघु उद्योगों को निधि की पूर्ति करना
(क) गृह उद्योगों को निधि की पूर्ति करना (ड) उपरोक्त में नहीं

20. IDBI बैंक की स्थापना हुई _____ थी।

- (अ) 1964 (ब) 1948
(क) 1980 (ड) 1974

विभाग—ब

1. (अ) अधिकोषों के संगणीकरण से आप क्या समझते हैं ? संगणीकरण की लाभ-हानियों को विशद कीजिये। 12

अथवा

(ब) भारत के बैंकिंग क्षेत्र के वर्तमान प्रवृत्तियों की चर्चा कीजिये। 12

2. (अ) सहकारी बैंकों के कार्य बताइये। भारत के ग्रामीण विकास में उनकी भूमिका विशद कीजिये। 12

अथवा

(ब) भारतीय रिजर्व बैंक के विविध कार्यों की चर्चा कीजिये। 12

3. (अ) बीमा से आपको क्या अर्थबोध होता है ? बीमा के सामान्य तत्व स्पष्ट कीजिये। 12

अथवा

(ब) "बीमा सामाजिक एवम् व्यवसायिक सुरक्षा का साधन है।" चर्चा कीजिये। 12

4. (अ) सामुद्रिक बीमा याने क्या ? सामुद्रिक बीमा के तत्व एवम् महत्व स्पष्ट कीजिये। 12

अथवा

(ब) फसल बीमा की आवश्यकता विशद कीजिये। फसल बीमा के वर्तमान प्रारूप (Forms) पर्याप्त हैं, क्या आप इससे सहमत हैं ? अपने उत्तर का समर्थन कीजिये। 12

5. (अ) भारत के आर्थिक विकास में जीवन बीमा का योगदान, विशद कीजिये। 12

अथवा

(ब) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (IDBI) के उद्देश्य एवम् कार्यों को स्पष्ट कीजिये। 12

